

Series : EFGH/S



SET ~ 2

रोल नं.

Roll No.

--	--	--	--	--	--	--	--

प्रश्न-पत्र कोड

Q.P. Code

32/S/2

परीक्षार्थी प्रश्न-पत्र कोड को उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अवश्य लिखें।

Candidates must write the Q.P. Code on the title page of the answer-book.



सामाजिक विज्ञान

SOCIAL SCIENCE



निर्धारित समय : 3 घण्टे

Time allowed : 3 hours

अधिकतम अंक : 80

Maximum Marks : 80

नोट / NOTE

#

- (I) कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में मुद्रित पृष्ठ **25 + 1** मानचित्र हैं।
Please check that this question paper contains **25** printed pages +1 Map.
- (II) प्रश्न-पत्र में दाहिने हाथ की ओर दिए गए प्रश्न-पत्र कोड को परीक्षार्थी उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर लिखें।
Q.P. Code given on the right hand side of the question paper should be written on the title page of the answer-book by the candidate.
- (III) कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में **37** प्रश्न हैं।
Please check that this question paper contains **37** questions.
- (IV) कृपया प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले, उत्तर-पुस्तिका में यथा स्थान पर प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें।
Please write down the Serial Number of the question in the answer-book at the given place before attempting it.
- (V) इस प्रश्न-पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया गया है। प्रश्न-पत्र का वितरण पूर्वाह्न में 10.15 बजे किया जाएगा। 10.15 बजे से 10.30 बजे तक परीक्षार्थी केवल प्रश्न-पत्र को पढ़ेंगे और इस अवधि के दौरान वे उत्तर-पुस्तिका पर कोई उत्तर नहीं लिखेंगे।
15 minute time has been allotted to read this question paper. The question paper will be distributed at 10.15 a.m. From 10.15 a.m. to 10.30 a.m., the candidates will read the question paper only and will not write any answer on the answer-book during this period.

32/S/2

Page 1 of 27

P.T.O.



**सामान्य निर्देश :**

निम्नलिखित निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उनका पालन कीजिए :

- (i) इस प्रश्न-पत्र में **37** प्रश्न हैं। **सभी** प्रश्न अनिवार्य हैं।
- (ii) प्रश्न-पत्र **छः** खण्डों में विभाजित है — **खण्ड क, ख, ग, घ, ङ एवं च**।
- (iii) **खण्ड क** – प्रश्न संख्या **1** से **20** बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न **1** अंक का है।
- (iv) **खण्ड ख** – प्रश्न संख्या **21** से **24** अति लघु-उत्तरीय प्रकार के प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न **2** अंकों का है। इन प्रश्नों का उत्तर **40** शब्दों से अधिक नहीं लिखा जाना चाहिए।
- (v) **खण्ड ग** – प्रश्न संख्या **25** से **29** लघु-उत्तरीय प्रकार के प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न **3** अंकों का है। इन प्रश्नों का उत्तर **60** शब्दों से अधिक नहीं लिखा जाना चाहिए।
- (vi) **खण्ड घ** – प्रश्न संख्या **30** से **33** दीर्घ-उत्तरीय प्रकार के प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न **5** अंकों का है। इन प्रश्नों का उत्तर **120** शब्दों से अधिक नहीं लिखा जाना चाहिए।
- (vii) **खण्ड ङ** – प्रश्न संख्या **34** से **36** केस/स्रोत-आधारित प्रश्न हैं, जिनमें तीन उप-प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न **4** अंकों का है।
- (viii) **खण्ड च** – प्रश्न संख्या **37** मानचित्र कौशल-आधारित प्रश्न है, जिसमें दो भाग हैं – **37 (क)** इतिहास (**2** अंक) और **37 (ख)** भूगोल (**3** अंक)। इस प्रश्न के कुल **5** अंक हैं।
- (ix) इसके अतिरिक्त, ध्यान दें कि दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए चित्र तथा मानचित्र आदि आधारित प्रश्नों के स्थान पर एक अन्य प्रश्न दिया गया है। इन प्रश्नों के उत्तर केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थी ही लिखें।

खण्ड क**(बहुविकल्पीय प्रश्न)****(20×1=20)**

1. निम्नलिखित में से कौन-सी लोकतंत्र की एक विशेषता है ?

1

- (A) यह सत्ता के विकेन्द्रीकरण पर आधारित है।
- (B) यह सत्ता के केन्द्रीकरण पर आधारित है।
- (C) इसमें सामाजिक समरसता स्थापित करना कठिन है।
- (D) इसमें राजनीतिक समरसता स्थापित करना कठिन है।

**General Instructions :**

Read the following instructions carefully and follow them :

- (i) This question paper contains **37** questions. **All** questions are **compulsory**.
- (ii) Question paper is divided into **six** sections — **Section A, B, C, D, E and F**.
- (iii) **Section A** – Questions no. **1 to 20** are Multiple Choice type questions. Each question carries **1** mark.
- (iv) **Section B** – Questions no. **21 to 24** are Very Short Answer type questions. Each question carries **2** marks. Answer to these questions should not exceed **40** words.
- (v) **Section C** – Questions no. **25 to 29** are Short Answer type questions. Each question carries **3** marks. Answer to these questions should not exceed **60** words.
- (vi) **Section D** – Questions no. **30 to 33** are Long Answer (LA) type questions. Each question carries **5** marks. Answer to these questions should not exceed **120** words.
- (vii) **Section E** – Questions no. **34 to 36** are Case/Source-based questions with three sub-questions. Each question carries **4** marks.
- (viii) **Section F** – Question no. **37** is Map skill-based question with two parts – **37(a)** from History (**2** marks) and **37(b)** from Geography (**3** marks). This question carries total **5** marks.
- (ix) In addition to this, **NOTE** that a separate question has been provided for Visually Impaired candidates in lieu of questions having visual inputs, map etc. Such questions are to be attempted by Visually Impaired candidates only.

SECTION A
(Multiple Choice Questions)

(20×1=20)

1. Which of the following is a feature of democracy ? 1
- (A) It is based on decentralisation of power.
 - (B) It is based on centralisation of power.
 - (C) It is difficult to establish social harmony.
 - (D) It is difficult to establish political harmony.





2. परिवहन में प्रगति हुई है। इसका निम्नलिखित में से वैश्वीकरण पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

- (A) शिपिंग लागतें बढ़ी हैं
- (B) व्यापार की गति धीमी हुई है
- (C) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सीमित हुआ है
- (D) माल के आवागमन की सुविधा में तीव्र वृद्धि हुई है

3. नीचे दी गई जानकारी को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए :

राहुल एक कार खरीदना चाहता है, लेकिन उसके पास पर्याप्त धन नहीं है। इसके लिए उसे ₹ 1,00,000 की आवश्यकता है।

राहुल के लिए निम्नलिखित में से किससे ऋण लेना उपयुक्त होगा ?

- (A) व्यावसायिक बैंक
- (B) साहूकार
- (C) रिश्तेदार
- (D) व्यापारी

4. रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए :

क्षेत्रक	प्रयुक्त मानदंड
i. संगठित और असंगठित?
ii. प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक	उत्पादन गतिविधियों की प्रकृति

- (A) रोजगार गतिविधियों की प्रकृति
- (B) सामाजिक गतिविधियों की प्रकृति
- (C) राजनीतिक गतिविधियों की प्रकृति
- (D) आर्थिक गतिविधियों की प्रकृति

5. निम्नलिखित में से विषम की पहचान कीजिए :

- (A) कृषि, मत्स्यन, खनन
- (B) वानिकी, व्यापार, डेयरी
- (C) अध्यापक, डॉक्टर, वकील
- (D) चीनी बनाना, सूती वस्त्र, लौह-इस्पात उद्योग



2. There are advancements in transportation. Which of the following is the impact of it on globalization ? 1

- (A) Increased shipping costs
- (B) Reduces the speed of trade
- (C) International trade has been limited
- (D) Facilitates faster movement of goods

3. Read the information given below and choose the correct option : 1
Rahul wants to buy a car but he does not have enough money. For this, he needs ₹ 1,00,000.

From which of the following would it be appropriate for Rahul to take a loan ?

- (A) Commercial bank
- (B) Moneylender
- (C) Relatives
- (D) Trader

4. Choose the appropriate option to fill in the blank : 1

<i>Sector</i>	<i>Criteria Used</i>
i. Organized and Unorganized?
ii. Primary, Secondary and Tertiary	Nature of production activities

- (A) Nature of employment activities
- (B) Nature of social activities
- (C) Nature of political activities
- (D) Nature of economic activities

5. Identify the odd one out from the following options : 1

- (A) Agriculture, Fishing, Mining
- (B) Forestry, Trading, Dairy
- (C) Teachers, Doctors, Lawyers
- (D) Making sugar, Cotton textile, Iron and Steel Industry



6. नीचे दिए गए आँकड़ों का अध्ययन कीजिए और उसके नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए :

किसी क्षेत्र की ग्रामीण जनसंख्या की शैक्षिक उपलब्धि		
श्रेणी	पुरुष	महिला
ग्रामीण जनसंख्या की साक्षरता दर	76%	54%
10 – 14 वर्ष की आयु वर्ग के ग्रामीण बच्चों की साक्षरता दर	90%	87%
10 – 14 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले ग्रामीण बच्चों का प्रतिशत	85%	82%

निम्नलिखित में से इस क्षेत्र में ग्रामीण पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर में अंतर है :

- (A) 22% (B) 12%
(C) 32% (D) 42%

7. निम्नलिखित परिदृश्य को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए :

1

एक सरकारी वित्तपोषित परियोजना का उद्देश्य एक ग्रामीण समुदाय के जीवन स्तर को सुधारना है। यह परियोजना कृषि विकास के माध्यम से औसत आय बढ़ाने पर केंद्रित है। हालाँकि, कुछ सामुदायिक सदस्यों ने परियोजना के संभावित पर्यावरणीय प्रभावों को लेकर चिंता व्यक्त की है।

उपर्युक्त परिदृश्य के आधार पर, निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सबसे उपयुक्त है ?

- (A) आर्थिक विकास धारणीयता के लिए गैर-जरूरी है।
(B) पर्यावरणीय धारणीयता आर्थिक विकास का अनिवार्य आधार है।
(C) आर्थिक विकास और पर्यावरणीय धारणीयता दोनों आवश्यक हैं।
(D) विकास के लक्ष्यों के लिए सामुदायिक चिंताएँ अप्रासंगिक हैं।

8. भारतीय संविधान का 73वाँ संशोधन महिलाओं का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस स्तर पर सुनिश्चित करता है ?

1

- (A) लोकसभा (B) राज्यसभा
(C) राज्य विधानसभा (D) जिला पंचायत

9. भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के विकासात्मक लक्ष्यों से संबंधित सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए।

1

- I. काम करने के अधिक दिन
II. बेहतर मजदूरी
III. अपनी उपज के लिए अधिक समर्थन मूल्य
IV. सामाजिक भेदभाव का अंत

विकल्प :

- (A) केवल I, II और III सही हैं। (B) केवल II, III और IV सही हैं।
(C) केवल I, II और IV सही हैं। (D) केवल I, III और IV सही हैं।



6. Study the following data and answer the question that follows :

<i>Educational Achievement of Rural Population of a Region</i>		
<i>Category</i>	<i>Male</i>	<i>Female</i>
Literacy rate for rural population	76%	54%
Literacy rate for rural children in age group 10 – 14 years	90%	87%
Percentage of rural children aged 10 – 14 years attending school	85%	82%

Which of the following is the difference in the literacy rates of rural males and females in the region ?

- (A) 22% (B) 12%
(C) 32% (D) 42%

7. Read the following scenario carefully and answer the question that follows :

A government-funded project aims to improve the living standards of a rural community. The project focuses on increasing average income through agricultural development. However, some community members express concerns about the potential environmental impact of the project. Based on the above scenario, which of the following statement is most appropriate ?

- (A) Economic development is non-essential for sustainability.
(B) Environmental sustainability is the essential base of economic development.
(C) Both economic development and environmental sustainability are essential.
(D) Community concerns are irrelevant to development goals.

8. The 73rd Amendment of the Indian Constitution ensures women's representation at which of the following levels ?

- (A) Lok Sabha (B) Rajya Sabha
(C) State Assembly (D) Zilla Panchayat

9. Choose the most appropriate option related to developmental goals of landless rural labourers.

- I. More days of work
II. Better wages
III. Higher support prices for their crops
IV. End of social discrimination

Options :

- (A) Only I, II and III are correct. (B) Only II, III and IV are correct.
(C) Only I, II and IV are correct. (D) Only I, III and IV are correct.





10. निम्नलिखित में से कौन-सा जोड़ा सुमेलित है ?

- | | |
|--------------------------------|----------------|
| (क्षेत्रीय दल) | (क्षेत्र) |
| (A) ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक | – गुजरात |
| (B) राष्ट्रीय जनता दल | – पश्चिम बंगाल |
| (C) पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी | – उत्तर प्रदेश |
| (D) द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | – तमिलनाडु |

11. भारत में सत्ता के विकेन्द्रीकरण संबंधी संविधान संशोधन 1992 का निम्नलिखित में से कौन-सा एक सकारात्मक परिणाम है ?

- (A) निष्पक्ष और नियमित स्थानीय चुनाव सुनिश्चित कर समुदायों का सशक्तिकरण ।
 (B) स्थानीय निर्णय लेने की भूमिकाओं के लिए राज्य सरकारों पर बढ़ती निर्भरता ।
 (C) पूरे देश में एकरूपता बनाए रखने के लिए सत्ता का केन्द्रीकरण ।
 (D) निर्णय लेने के मामलों में स्थानीय प्रतिनिधियों को असीमित अधिकार ।

12. स्तंभ I का स्तंभ II से मिलान कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए :

- | | |
|------------------|-------------------------------|
| स्तंभ I | स्तंभ II |
| (संघीय सूची) | (कार्यपालिका शक्ति) |
| a. संघ सूची | i. व्यापार |
| b. राज्य सूची | ii. सॉफ्टवेयर |
| c. समवर्ती सूची | iii. संचार |
| d. बाकी बचे विषय | iv. मज़दूर-संघ (ट्रेड यूनियन) |

विकल्प :

- (A) a-i, b-ii, c-iii, d-iv (B) a-ii, b-iii, c-i, d-iv
 (C) a-iii, b-i, c-iv, d-ii (D) a-iv, b-i, c-iii, d-ii

13. नीचे दो कथन दिए गए हैं । ये अभिकथन (A) और कारण (R) हैं । दोनों कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए :

अभिकथन (A) : बेल्जियम की 'सामुदायिक सरकार' को सांस्कृतिक, शैक्षिक और भाषा-संबंधी मुद्दों पर फैसले लेने का अधिकार है ।

कारण (R) : बेल्जियम में राज्य सरकारें केंद्र सरकार के अधीन हैं ।

विकल्प :

- (A) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है ।
 (B) (A) और (R) दोनों सही हैं, परन्तु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है ।
 (C) (A) सही है, परन्तु (R) गलत है ।
 (D) (A) गलत है, परन्तु (R) सही है ।



10. Which one of the following pairs is correctly matched ? 1

(Regional Parties)

(Region)

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| (A) All India Forward Bloc | – Gujarat |
| (B) Rashtriya Janata Dal | – West Bengal |
| (C) People's Democratic Party | – Uttar Pradesh |
| (D) Dravida Munnetra Kazhagam | – Tamil Nadu |

11. Which of the following is a positive outcome of the Constitutional Amendment of 1992 regarding decentralisation of power in India ? 1

- (A) Empowering communities by ensuring fair and regular local elections.
- (B) Increasing reliance on state governments for local decision-making roles.
- (C) Centralizing of power to maintain uniformity across the nation.
- (D) Unlimited rights to the local representatives in decision-making matters.

12. Match Column I with Column II and choose the correct option : 1

Column I

Column II

(Federal List)

(Legislative Power)

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| a. Union List | i. Trade |
| b. State List | ii. Software |
| c. Concurrent List | iii. Communication |
| d. Residuary Subjects | iv. Trade Union |

Options :

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| (A) a-i, b-ii, c-iii, d-iv | (B) a-ii, b-iii, c-i, d-iv |
| (C) a-iii, b-i, c-iv, d-ii | (D) a-iv, b-i, c-iii, d-ii |

13. Two statements are given below. They are Assertion (A) and Reason (R). Read both the statements carefully and choose the correct option : 1

Assertion (A) : Belgium's 'community government' has the power regarding cultural, educational and language-related issues.

Reason (R) : The State Governments are subordinate to the Central Government in Belgium.

Options :

- (A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).
- (B) Both (A) and (R) are true, but (R) is **not** the correct explanation of (A).
- (C) (A) is true, but (R) is false.
- (D) (A) is false, but (R) is true.





14. स्तंभ I का स्तंभ II से मिलान कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए :

1

स्तंभ I (खनिज)	स्तंभ II (उपयोग)
a. मैंगनीज	i. ऐलुमिनियम के उत्पादन में उपयोग
b. बॉक्साइट	ii. कीटनाशक बनाने में उपयोग
c. ताँबा	iii. सीमेंट निर्माण में उपयोग
d. चूना पत्थर	iv. विद्युत तारों में उपयोग

विकल्प :

- (A) a-i, b-iii, c-iv, d-ii
 (B) a-ii, b-i, c-iv, d-iii
 (C) a-iii, b-iv, c-i, d-ii
 (D) a-iv, b-ii, c-iii, d-i

15. निम्नलिखित जानकारी की सहायता से रेशेदार फ़सल की पहचान कीजिए :

1

- इसे सुनहरा रेशा कहा जाता है।
- इसका उत्पादन ओडिशा और मेघालय के कुछ हिस्सों में बड़े पैमाने पर होता है।

- (A) जूट (B) कपास
 (C) रेशम (D) लिनन

16. एक किसान उच्च तापमान और हल्की वर्षा वाले क्षेत्र और पालारहित दिनों में कपास की फ़सल उगाने की योजना बना रहा है।

1

निम्नलिखित में से कौन-सी मृदा इसके लिए उपयुक्त है ?

- (A) काली मृदा (B) लेटराइट मृदा
 (C) जलोढ मृदा (D) पीली मृदा





14. Match Column I with Column II and choose the correct option :

1

Column I
(Minerals)

Column II
(Uses)

- | | |
|--------------|--|
| a. Manganese | i. Used in the production of aluminium |
| b. Bauxite | ii. Used for making insecticides |
| c. Copper | iii. Used in cement manufacturing |
| d. Limestone | iv. Used for electrical wiring |

Options :

- (A) a-i, b-iii, c-iv, d-ii
(B) a-ii, b-i, c-iv, d-iii
(C) a-iii, b-iv, c-i, d-ii
(D) a-iv, b-ii, c-iii, d-i

15. Identify the fibre crop with the help of the following information :

1

- It is known as Golden fibre.
- It is extensively cultivated in Odisha and parts of Meghalaya.

- | | |
|----------|------------|
| (A) Jute | (B) Cotton |
| (C) Silk | (D) Linen |

16. A farmer is planning to grow cotton crops in a high temperature area with light rainfall and frost-free days.

Which of the following soils is suitable for it ?

1

- | | |
|-------------------|-------------------|
| (A) Black soil | (B) Laterite soil |
| (C) Alluvial soil | (D) Yellow soil |





17. निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए।

1


- I. कुस्तुनतुनिया की संधि
- II. नेपोलियन की पराजय
- III. हैब्सबर्ग शासकों द्वारा हंगरी के लोगों को ज्यादा स्वायत्तता प्रदान करना
- IV. नेपोलियन नागरिक संहिता

विकल्प :

- (A) III, I, II, IV
- (B) II, III, IV, I
- (C) I, IV, III, II
- (D) IV, II, I, III

18. नीचे दिए गए चित्र को देखिए। भारत माता की छवि क्या दर्शाती है ? सही विकल्प का चयन कीजिए :

1



- (A) विविधता और विरासत
- (B) अध्यात्मवाद और ज्ञान
- (C) शक्ति और सत्ता
- (D) राष्ट्रवाद और लोकतंत्र




17. Arrange the following in chronological order and choose the correct option. 1

- I. The Treaty of Constantinople
- II. The defeat of Napoleon
- III. The granting of more autonomy to Hungarians by the Habsburg rulers
- IV. The Napoleonic Civil Code

Options :

- (A) III, I, II, IV
- (B) II, III, IV, I
- (C) I, IV, III, II
- (D) IV, II, I, III

18. Look at the picture given below. What does the image of Bharat Mata signify ? Choose the correct option : 1



- (A) Diversity and heritage
- (B) Spiritualism and enlightenment
- (C) Power and authority
- (D) Nationalism and democracy





नोट : निम्नलिखित प्रश्न केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न संख्या 18 के स्थान पर है।

निम्नलिखित में से किन लोगों ने 'स्वराज पार्टी' की स्थापना की ?

1

- (A) सरदार वल्लभभाई पटेल और बिपिन चन्द्र पाल
- (B) बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय
- (C) जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चन्द्र बोस
- (D) सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू

19. मुद्रण संस्कृति ने भारतीय राष्ट्रवाद की भावना के विकास में किस प्रकार योगदान दिया ?

निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए :

1

- (A) पश्चिमी संस्कृति को मंच प्रदान करके
- (B) यूरोपीय भाषाओं का प्रचार करके
- (C) दमन के साझा भावों को मंच प्रदान करके
- (D) साम्राज्यवाद के प्रभुत्व का प्रचार करके

20. निम्नलिखित में से कौन-सा खाद्य पदार्थ क्रिस्टोफर कोलम्बस की अमेरिका की खोज के बाद यूरोप और एशिया में आया ?

1

- (A) गेहूँ
- (B) चावल
- (C) आलू
- (D) बैंगन



Note : The following question is for the **Visually Impaired Candidates** only, in lieu of Q. No. 18.

Who among the following people established the 'Swaraj Party' ? 1

- (A) Sardar Vallabhbhai Patel and Bipin Chandra Pal
- (B) Bal Gangadhar Tilak and Lala Lajpat Rai
- (C) Jawaharlal Nehru and Subhas Chandra Bose
- (D) C.R. Das and Motilal Nehru

19. How did print culture contribute to the development of a sense of Indian nationalism ? Choose the most appropriate option from the following : 1

- (A) By providing a platform to western culture
- (B) By propagating European languages
- (C) By providing a platform for shared feelings of oppression
- (D) By propagating the supremacy of imperialism

20. Which of the following food products came to Europe and Asia after Christopher Columbus's discovery of America ? 1

- (A) Wheat
- (B) Rice
- (C) Potatoes
- (D) Brinjal



खण्ड ख
(अति लघु-उत्तरीय प्रश्न)

(4×2=8)

21. (क) भू-निम्नीकरण को कम करने के उपायों की व्याख्या कीजिए। 2
- अथवा**
- (ख) मृदा अपरदन को कम करने के उपायों की व्याख्या कीजिए। 2
22. महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कोई दो कानूनी सुधार सुझाइए। 2
23. भारत ने 'मानव विकास सूचकांक (HDI)' में किस प्रकार प्रगति की है ? इसे किन्हीं दो उदाहरणों से स्पष्ट कीजिए। 2
24. सोलहवीं शताब्दी में व्यापार के परिवर्तन का यूरोप और अमेरिका के लोगों पर किस प्रकार प्रभाव पड़ा ? स्पष्ट कीजिए। 2

खण्ड ग
(लघु-उत्तरीय प्रश्न)

(5×3=15)

25. (क) इटली में एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। 3
- अथवा**
- (ख) यूरोप में राष्ट्रवादी आंदोलन पर 'यूनानी स्वतंत्रता संग्राम' के प्रभाव का वर्णन कीजिए। 3
26. भारत में 1990 के दशक में अपनाई गई उदारीकरण की नीति ने किस प्रकार वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया ? उदाहरणों सहित स्पष्ट कीजिए। 3
27. वाणिज्यिक कृषि की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। 3
28. एकदलीय और बहुदलीय प्रणाली में अंतर को स्पष्ट कीजिए। 3
29. लोगों को आवश्यक सेवाएँ प्रदान करने में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका की परख कीजिए। 3



**SECTION B****(Very Short Answer Type Questions)****(4×2=8)**

21. (a) Explain the measures to reduce land degradation. 2
- OR**
- (b) Explain the measures to reduce soil erosion. 2
22. Suggest any two legal reforms that are necessary to protect women's rights. 2
23. How has India progressed in 'Human Development Index (HDI)' ? Explain it with any two examples. 2
24. How did the transformation of trade in the sixteenth century impact the lives of people in Europe and America ? Explain. 2

SECTION C**(Short Answer Type Questions)****(5×3=15)**

25. (a) Describe the process of unification of Italy. 3
- OR**
- (b) Describe the impact of the 'Greek War of Independence' on the nationalist movement in Europe. 3
26. How did the policy of liberalisation adopted by India in the 1990s promote globalisation ? Explain with examples. 3
27. Explain the main features of commercial agriculture. 3
28. Differentiate between Single and Multi-party system. 3
29. Examine the role of public sector in providing essential services to the people. 3

**खण्ड घ****(दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न)****(4×5=20)**

- 30.** (क) “सविनय अवज्ञा आंदोलन, एक जन आंदोलन बन गया।” इस कथन की व्याख्या उदाहरणों सहित कीजिए। 5

अथवा

- (ख) “आर्थिक मोर्चे पर असहयोग का असर और भी ज्यादा नाटकीय रहा था।” इस कथन की व्याख्या उदाहरणों सहित कीजिए। 5

- 31.** (क) ऊर्जा के गैर-परंपरागत स्रोतों के महत्त्व को उदाहरणों सहित स्पष्ट कीजिए। 5

अथवा

- (ख) मानव जीवन के लिए खनिजों के महत्त्व को उदाहरणों सहित स्पष्ट कीजिए। 5

- 32.** (क) “गरिमा और आजादी की चाह ही लोकतंत्र का आधार है।” इस कथन को न्यायसंगत ठहराइए। 5

अथवा

- (ख) “लोकतंत्र के सिद्धांत नागरिकों को बेहतर शासन व्यवस्था प्रदान करते हैं।” इस कथन को न्यायसंगत ठहराइए। 5

- 33.** (क) किसी राष्ट्र के विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। 5

अथवा

- (ख) देश के आर्थिक विकास में ‘भारतीय रिजर्व बैंक’ की भूमिका की परख कीजिए। 5





SECTION D
(Long Answer Type Questions)

(4×5=20)

- 30.** (a) “Civil Disobedience Movement became a mass movement.” Explain the statement with examples. 5

OR

- (b) “The effects of non-cooperation on the economic front were more dramatic.” Explain the statement with examples. 5

- 31.** (a) Explain the importance of non-conventional sources of energy with examples. 5

OR

- (b) Explain with examples the importance of minerals for human life. 5

- 32.** (a) “The passion for respect and freedom is the basis of democracy.” Justify the statement. 5

OR

- (b) “Principles of democracy provide citizens with a better form of government.” Justify this statement. 5

- 33.** (a) Analyse the role of credit in the development of a nation. 5

OR

- (b) Examine the role of ‘Reserve Bank of India’ in the economic development of the country. 5





खण्ड ड
(केस/स्रोत-आधारित प्रश्न)

(3×4=12)

34. दिए गए स्रोत को पढ़िए और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

सत्ता की साझेदारी और पंचायती राज

महात्मा गाँधी के सपनों को साकार करने और अपने संविधान निर्माताओं की उम्मीदों को पूरा करने के लिए हमें पंचायतों को अधिकार देने की ज़रूरत है। पंचायती राज ही वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना करता है। यह सत्ता उन लोगों के हाथों में सौंपता है जिनके हाथों में इसे होना चाहिए। भ्रष्टाचार कम करने और प्रशासनिक कुशलता को बढ़ाने का एक उपाय पंचायतों को अधिकार देना भी है। जब विकास की योजनाओं को बनाने और लागू करने में लोगों की भागीदारी होगी तो इन योजनाओं पर उनका नियंत्रण बढ़ेगा। इससे भ्रष्ट बिचौलियों को खत्म किया जा सकेगा। इस प्रकार पंचायती राज, लोकतंत्र की नींव को मज़बूत करेगा।

- | | |
|--|---|
| (34.1) सत्ता की साझेदारी का सिद्धांत किस प्रकार लोकतंत्र को बढ़ावा देता है ? | 1 |
| (34.2) पंचायती राज में महिलाओं की भागीदारी के मुख्य प्रभाव का उल्लेख कीजिए। | 1 |
| (34.3) गाँवों के विकास में पंचायतों की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। | 2 |

35. दिए गए स्रोत को पढ़िए और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

प्रिंट और प्रतिबंध

मुद्रित शब्द की ताकत का अंदाज़ा अक्सर सरकार द्वारा उसको नियंत्रित करने और दबाने की कोशिशों से मिलता है। औपनिवेशिक प्रशासन हमेशा भारत में प्रकाशित तमाम किताबों और पत्र-पत्रिकाओं पर नज़र रखता था तथा प्रेस पर नियंत्रण रखने के लिए बहुत-से कानून पारित करता था।

प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, भारतीय रक्षा नियमों के तहत, 22 अखबारों को ज़मानत देनी पड़ी थी। इनमें से 18 ने सरकारी आदेश मानने की जगह खुद को बंद कर देना उचित समझा। रॉलट के अधीन कार्यरत षड्यंत्र समिति ने 1919 में विभिन्न अखबारों के खिलाफ जुर्माना आदि कार्रवाइयों को और सख्त बना दिया। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत पर, 'भारतीय रक्षा अधिनियम' पारित किया गया, ताकि युद्ध-संबंधी विषयों की रिपोर्टों को सेंसर किया जा सके। भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी तमाम रपटें इसी के तहत सेंसर होती थीं। अगस्त 1942 में तक्ररीबन 90 अखबारों का दमन किया गया।

**SECTION E****(Case/Source-Based Questions)****(3×4=12)**

34. Read the given source and answer the questions that follow :

Power Sharing and Panchayati Raj

We need to give more power to the panchayats to realise the dream of Mahatma Gandhi and the hopes of the makers of our Constitution. Panchayati Raj establishes true democracy. It restores power to the only place where power belongs in a democracy – in the hands of the people. Giving power to Panchayats is also a way to reduce corruption and increase administrative efficiency. When people participate in the planning and implementation of developmental schemes, they would naturally exercise greater control over these schemes. This would eliminate the corrupt middlemen. Thus, Panchayati Raj will strengthen the foundations of our democracy.

- (34.1) How does the principle of power sharing promote democracy ? 1
- (34.2) Mention the main impact of women's participation in Panchayati Raj. 1
- (34.3) Explain the role of Panchayats in the development of villages. 2

35. Read the given source and answer the questions that follow :

Print and Censorship

The power of the printed word is most often seen in the way governments seek to regulate and suppress print. The colonial government kept continuous track of all books and newspapers published in India and passed numerous laws to control the press.

During the First World War, under the Defence of India Rules, 22 newspapers had to furnish securities. Of these, 18 shut down rather than comply with government orders. The Sedition Committee Report under Rowlatt in 1919 further strengthened controls that led to imposition of penalties on various newspapers. At the outbreak of the Second World War, the 'Defence of India Act' was passed, allowing censoring of reports of war-related topics. All reports about the Quit India Movement came under its purview. In August 1942, about 90 newspapers were suppressed.





- (35.1) 1942 में अखबारों का दमन क्यों किया गया ? 1
- (35.2) औपनिवेशिक सरकार की नीतियों ने राष्ट्रवाद को कैसे प्रभावित किया ? 1
- (35.3) औपनिवेशिक भारत में प्रेस की भूमिका की परख कीजिए। 2

36. दिए गए स्रोत को पढ़िए और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

सरदार सरोवर

सरदार सरोवर बाँध गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाया गया है। यह भारत की एक बड़ी जल संसाधन परियोजना है जिसमें चार राज्य – महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा राजस्थान सम्मिलित हैं। सरदार सरोवर परियोजना सूखाग्रस्त तथा मरुस्थलीय भागों की जल की आवश्यकता को पूरा करेगी। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात के 15 जिलों के 3112 गाँवों की 18.45 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा प्रदान करेगी। इससे राजस्थान के सामरिक महत्त्व के रेगिस्तानी जिलों बाड़मेर और जालौर के 2,46,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई भी होगी तथा महाराष्ट्र के आदिवासी पहाड़ी इलाके में लिफ्ट के माध्यम से 37,500 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी। गुजरात में लगभग 75 प्रतिशत कमांड क्षेत्र सूखा प्रवण है जबकि राजस्थान में संपूर्ण कमांड क्षेत्र सूखा प्रवण है। सुनिश्चित जल की उपलब्धता जल्द ही इस क्षेत्र को सूखारोधी बना देगी।

- (36.1) सरदार सरोवर बाँध के महत्त्व को स्पष्ट कीजिए। 1
- (36.2) सरदार सरोवर बाँध धारणीय विकास के साथ कैसे मेल खाता है ? 1
- (36.3) सरदार सरोवर परियोजना की सफलता में सामुदायिक भागीदारी की भूमिका की परख कीजिए। 2





- (35.1) Why were newspapers suppressed in 1942 ? 1
- (35.2) How did the colonial government's policies affect nationalism ? 1
- (35.3) Examine the role of the press in colonial India. 2

36. Read the given source and answer the questions that follow :

Sardar Sarovar

Sardar Sarovar Dam has been built over the Narmada River in Gujarat. This is one of the largest water resource projects of India covering four states — Maharashtra, Madhya Pradesh, Gujarat and Rajasthan. The Sardar Sarovar project would meet the requirement of water in drought-prone and desert areas. Sardar Sarovar Project will provide irrigation facilities to 18.45 lakh hectare of land, covering 3112 villages in 15 districts of Gujarat. It will also irrigate 2,46,000 hectare of land in the strategic desert districts of Barmer and Jalore in Rajasthan and 37,500 hectare land in the tribal hilly tract of Maharashtra through lift. About 75 per cent of the command area in Gujarat is drought-prone while entire command in Rajasthan is drought-prone. Assured water supply will soon make this area drought-proof.

- (36.1) Explain the importance of Sardar Sarovar Dam. 1
- (36.2) How does Sardar Sarovar Dam align with sustainable development ? 1
- (36.3) Examine the role of community participation in the success of the Sardar Sarovar Project. 2



**खण्ड च****(मानचित्र कौशल-आधारित प्रश्न)****(2+3=5)**

- 37. (क)** भारत के दिए गए राजनीतिक रेखा-मानचित्र (पृष्ठ 27 पर), में दो स्थानों को 'A' और 'B' के रूप में अंकित किया गया है। निम्नलिखित जानकारी की सहायता से उन्हें पहचानिए और उनके सही नाम उनके समीप खींची गई रेखाओं पर लिखिए : $2 \times 1 = 2$

- A. खेड़ा – सत्याग्रह आंदोलन
B. 1927 – भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन

नोट : निम्नलिखित प्रश्न केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न संख्या 37 (क) के स्थान पर हैं।

- (क) (i) उस स्थान का नाम लिखिए जहाँ 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ।
(ii) उस स्थान का नाम लिखिए जहाँ से गाँधीजी ने नील खेतीहरों के लिए सत्याग्रह किया। $2 \times 1 = 2$

- (ख) भारत के इसी राजनीतिक रेखा-मानचित्र में, निम्नलिखित में से किन्हीं **तीन** को उपयुक्त चिह्नों से दर्शाइए और उनके नाम लिखिए : $3 \times 1 = 3$
- (i) टिहरी – बाँध
(ii) काकरापारा – परमाणु ऊर्जा संयंत्र
(iii) मुंबई – सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क
(iv) श्री गुरु राम दास जी – अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा

नोट : निम्नलिखित प्रश्न केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न संख्या 37 (ख) के स्थान पर हैं।

- (ख) किन्हीं **तीन** प्रश्नों के उत्तर दीजिए। $3 \times 1 = 3$
- (i) उस राज्य का नाम लिखिए जहाँ टिहरी बाँध स्थित है।
(ii) उस राज्य का नाम लिखिए जहाँ काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है।
(iii) उस राज्य का नाम लिखिए जहाँ मुंबई सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क स्थित है।
(iv) उस राज्य का नाम लिखिए जहाँ श्री गुरु राम दास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है।



**SECTION F****(Map Skill-Based Questions)****(2+3=5)**

- 37.** (a) Two places 'A' and 'B' have been marked on the given political outline map of **India** (on page 27). Identify them with the help of the following information and write their correct names on the lines drawn near them : $2 \times 1 = 2$
- A. Kheda – A Satyagraha Movement
- B. 1927 – A session of Indian National Congress

Note : The following questions are for the **Visually Impaired Candidates** only, in lieu of Q. No. **37 (a)**.

- (a) (i) Name the place where the session of Indian National Congress was held in 1927.
- (ii) Name the place where Gandhiji organized Satyagraha for Indigo Planters. $2 \times 1 = 2$
- (b) On the same political outline map of **India**, locate and label any **three** of the following with suitable symbols : $3 \times 1 = 3$
- (i) Tehri – Dam
- (ii) Kakrapara – Nuclear Power Plant
- (iii) Mumbai – Software Technology Park
- (iv) Sri Guru Ram Das Jee – International Airport

Note : The following questions are for the **Visually Impaired Candidates** only, in lieu of Q. No. **37 (b)**.

- (b) Attempt any **three** questions. $3 \times 1 = 3$
- (i) Name the State where Tehri Dam is located.
- (ii) Name the State where Kakrapara Nuclear Power Plant is located.
- (iii) Name the State where Mumbai Software Technology Park is located.
- (iv) Name the State where Sri Guru Ram Das Jee International Airport is located.



#





प्रश्न सं. 37 के लिए

For question no. 37



Marking Scheme

Strictly Confidential

(For Internal and Restricted use only)

SECONDARY SCHOOL SUPPLEMENTARY EXAMINATION, 2025

SUBJECT NAME: SOCIAL SCIENCE (SUB. CODE-087)

SET-32/S/2

General Instructions:	
1.	You are aware that evaluation is the most important process in the actual and correct assessment of the candidates. A small mistake in evaluation may lead to serious problems which may affect the future of the candidates, education system and teaching profession. To avoid mistakes, it is requested that before starting evaluation, you must read and understand the spot evaluation guidelines carefully.
2.	“Evaluation policy is a confidential policy as it is related to the confidentiality of the examinations conducted, evaluation done and several other aspects. Its leakage to public in any manner could lead to derailment of the examination system and affect the life and future of millions of candidates. Sharing this policy/document to anyone, publishing in any magazine and printing in Newspaper/Website etc. may invite action under various rules of the Board and BNS.”
3.	Evaluation is to be done as per instructions provided in the Marking Scheme. It should not be done according to one’s own interpretation or any other consideration. Marking Scheme should be strictly adhered to and religiously followed. However, while evaluating, answers which are based on latest information or knowledge and/or are innovative, they may be assessed for their correctness otherwise and due marks be awarded to them. In class-X, while evaluating two competency-based questions, please try to understand given answer and even if reply is not from marking scheme but correct competency is enumerated by the candidate, due marks should be awarded.
4.	The Marking Scheme carries only suggested value points for the answers. These are in the nature of Guidelines only and do not constitute the complete answer. The students can have their own expression and if the expression is correct, the due marks should be awarded accordingly.
5.	The Head-Examiner must go through the first five answer books evaluated by each evaluator on the first day, to ensure that evaluation has been carried out as per the instructions given in the Marking Scheme. If there is any variation, the same should be zero after deliberation and discussion. The remaining answer books meant for evaluation shall be given only after ensuring that there is no significant variation in the marking of individual evaluators
6.	Evaluators will mark (✓) wherever answer is correct. For wrong answer CROSS ‘X’ be marked. Evaluators will not put right (✓) while evaluating which gives an impression that answer is correct and no marks are awarded. This is most common mistake which evaluators are committing.
7.	If a question has parts, please award marks on the right-hand side for each part. Marks awarded for different parts of the question should then be totaled up and written in the left-hand margin and encircled. This may be followed strictly
8.	If a question does not have any parts, marks must be awarded in the left-hand margin and encircled. This may also be followed strictly.
9.	If a student has attempted an extra question, answer of the question deserving more marks should be retained and the other answer scored out with a note “Extra Question” .



10.	No marks to be deducted for the cumulative effect of an error. It should be penalized only once.
11.	A full scale of marks <u>80</u> (example 0 to 80/70/60/50/40/30 marks as given in Question Paper) has to be used. Please do not hesitate to award full marks if the answer deserves it.
12.	Every examiner has to necessarily do evaluation work for full working hours i.e., 8 hours every day and evaluate 20 answer books per day in main subjects and 25 answer books per day in other subjects (Details are given in Spot Guidelines). This is in view of the reduced syllabus and number of questions in question paper.
13.	<p>Ensure that you do not make the following common types of errors committed by the Examiner in the past:-</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Leaving answer or part thereof unassessed in an answer book. ● Giving more marks for an answer than assigned to it. ● Wrong totaling of marks awarded on an answer. ● Wrong transfer of marks from the inside pages of the answer book to the title page. ● Wrong question wise totaling on the title page. ● Wrong totaling of marks of the two columns on the title page. ● Wrong grand total. ● Marks in words and figures not tallying/not same. ● Wrong transfer of marks from the answer book to online award list. ● Answers marked as correct, but marks not awarded. (Ensure that the right tick mark is correctly and clearly indicated. It should merely be a line. Same is with the X for incorrect answer.) ● Half or a part of answer marked correct and the rest as wrong, but no marks awarded.
14.	While evaluating the answer books if the answer is found to be totally incorrect, it should be marked as cross (X) and awarded zero (0) Marks.
15.	Any unassessed portion, non-carrying over of marks to the title page, or totaling error detected by the candidate shall damage the prestige of all the personnel engaged in the evaluation work as also of the Board. Hence, in order to uphold the prestige of all concerned, it is again reiterated that the instructions be followed meticulously and judiciously.
16.	The Examiners should acquaint themselves with the guidelines given in the “Guidelines for Spot Evaluation” before starting the actual evaluation.
17.	Every Examiner shall also ensure that all the answers are evaluated, marks carried over to the title page, correctly totaled and written in figures and words.
18.	The candidates are entitled to obtain photocopy of the Answer Book on request on payment of the prescribed processing fee. All Examiners/Additional Head Examiners/Head Examiners are once again reminded that they must ensure that evaluation is carried out strictly as per value points for each answer as given in the Marking Scheme.



Marking Scheme

SECONDARY SCHOOL SUPPLEMENTARY EXAMINATION, 2025

SUBJECT NAME: SOCIAL SCIENCE (SUB. CODE-087)

SET-2

Set-32/S/2

M.M: 80

Q. No.	Value Points	Page No.	Marks
	Section A (Multiple Choice Questions)		15X1=15
1.	(A) It is based on decentralization of power	24 P	1
2.	(D) Facilitates faster movement of goods.	82 E	1
3.	(A) Commercial Banks	48 E	1
4.	(D) Nature of economic activities	30 E	1
5.	(B) Forestry, Trading and Diary	20 E	1
6.	(A) 22%	12 E	1
7.	(C) Both economic development and environmental stability are essential.	16 E	1
8.	(D) Zilla Panchayat	24 P	1
9.	(C) Only I, II and IV are correct	04E	1
10.	(D) Dravida Munnetra Kazhagam- Tamil Nadu	56 P	1
11.	(A) Empowering communities by ensuring fair and regular local elections	24 P	1
12.	(C) a-iii, b-i, c-iv, d-ii	17 P	1
13.	(C) (A) is true, but (R) is false	04 P	1
14.	(B) a-ii, b-i, c-iv, d-iii	45-48 G	1
15.	(A) Jute	38 G	1
16.	(A) Black soil	07 G	1
17.	(D) IV, II, I and III	06-18 H	1
18.	(C) Power and authority For Visually Impaired students only- (D) C.R. Das and Motilal Nehru	48 H 38 H	1 1
19.	(C) By providing a platform for shared feelings of oppression	122 H	1
20.	(C) Potatoes	54-55 H	1



	Section B (Very Short Answer Type Questions)		4X2=8
21.	<p>(a) Explain the measures to reduce land degradation.</p> <ol style="list-style-type: none"> Afforestation Planting shelter belts of plants, Control on over grazing, Stabilization of sand dunes by growing thorny bushes in arid areas. Proper management of wasteland. Control of mining activities. Proper discharge and disposal of industrial effluents and wastes after treatment in industrial and suburban areas. Any other relevant point <p>(Any two points to be explained)</p> <p>OR</p> <p>(b) Explain the measures to reduce soil erosion.</p> <ol style="list-style-type: none"> Ploughing along the contour lines can decelerate the flow of water down the slopes. Steps can be cut out on the slopes making terraces. Terrace cultivation restricts erosion. Large fields can be divided into strips. Strips of grass are left to grow between the crops. This breaks up the force of the wind. Planting lines of trees to create shelter belts to stop soil erosion. Any other relevant point <p>(Any two points to be explained)</p>	06G	2X1=2
		10G	2X1=2
22.	<p>Suggest any two legal reforms that are necessary to protect women's rights.</p> <ol style="list-style-type: none"> The government should strengthen laws against domestic violence to safeguard women. Effective implementation of laws should be promulgated against sexual harassment. Women should be granted easier access to justice for elevating their overall position in the society. Girl child protection laws should be implemented effectively. Effective implementation of the Dowry Prohibition Act. 	33-35 P	2X1=2



	vi. Equal Wages Remuneration Act of 1976 should be continued effectively. vii. Nari shakti Vandan Adhiniyam of 2023 should be implemented in true spirit. viii. One-third of seats in local government bodies are now reserved for ix. Women, which should continue to enhance the status of women. x. Any other relevant point. (Any two points to be explained)		
23.	How has India progressed in ‘Human Development Index (HDI)’ ? Explain it with any two examples. i. Improvement in Life Expectancy due to improved health facilities. ii. Enhanced education facilities have led to improved literacy rate. iii. Public Distribution System has ensured food availability for poor people. iv. Reduced infant mortality rate due to improved education and medical facilities. v. Any other relevant point (Any two points to be explained)	13E	2X1=2
24.	How did the transformation of trade in the sixteenth century impact the lives of people in Europe and America ? Explain. i. From the sixteenth century, vast lands and abundant crops and minerals of America began to transform trade and lives everywhere. ii. Europe’s poor began to eat better and live longer with the introduction of the humble potato. iii. Precious metals, particularly silver, from mines located in present day Peru and Mexico enhanced Europe’s wealth and financed its trade with Asia. iv. The Portuguese and Spanish conquered and colonised America. v. Smallpox spread through Spanish decimated whole communities in America. vi. Any other relevant point (Any two points to be explained)	54 H	2X1=2
	Section C (Short Answer Type Questions)		5X3=15



25.	<p>(a) Describe the process of unification of Italy.</p> <ol style="list-style-type: none"> During the middle of the nineteenth century, Italy was divided into seven states, of which only one, Sardinia-Piedmont, was ruled by an Italian princely house During the 1830s, Giuseppe Mazzini had sought to put together a coherent programme for a unitary Italian Republic. The failure of revolutionary uprisings both in 1831 and 1848 meant that the mantle now fell on Sardinia-Piedmont under its ruler King Victor Emmanuel II to unify the Italian states through war. In the eyes of the ruling elites of this region, a unified Italy offered them the possibility of economic development and political dominance. Chief Minister Cavour who led the movement to unify the regions of Italy was neither a revolutionary nor a democrat. Through a tactful diplomatic alliance with France engineered by Cavour, Sardinia-Piedmont succeeded in defeating the Austrian forces in 1859. Apart from regular troops, a large number of armed volunteers under the leadership of Giuseppe Garibaldi joined the war. In 1860, they marched into South Italy and the Kingdom of the Two Sicilies and succeeded in winning the support of the local peasants in order to drive out the Spanish rulers. In 1861 Victor Emmanuel II was proclaimed king of united Italy. Any other relevant point. <p>(To be assessed as whole)</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>(b) Describe the impact of the ‘Greek War of Independence’ on the nationalist movement in Europe.</p> <ol style="list-style-type: none"> Greek war of independence mobilised nationalist feelings among the educated elite across Europe. Greece had been part of the Ottoman Empire since the fifteenth century. The growth of revolutionary nationalism in Europe sparked off a struggle for independence amongst the Greeks which began in 1821. Nationalists in Greece got support from other Greeks living in exile. Many West Europeans who had sympathies for ancient Greek culture also supported Greek nationalists. Poets and artists lauded Greece as the cradle of European civilisation and mobilised public opinion to support its struggle against a Muslim empire. The English poet Lord Byron organised funds and later went to fight in the war. Any other relevant point <p>(Any three points to be described)</p>	20 H	5X1=5
	<p>(b) Describe the impact of the ‘Greek War of Independence’ on the nationalist movement in Europe.</p> <ol style="list-style-type: none"> Greek war of independence mobilised nationalist feelings among the educated elite across Europe. Greece had been part of the Ottoman Empire since the fifteenth century. The growth of revolutionary nationalism in Europe sparked off a struggle for independence amongst the Greeks which began in 1821. Nationalists in Greece got support from other Greeks living in exile. Many West Europeans who had sympathies for ancient Greek culture also supported Greek nationalists. Poets and artists lauded Greece as the cradle of European civilisation and mobilised public opinion to support its struggle against a Muslim empire. The English poet Lord Byron organised funds and later went to fight in the war. Any other relevant point <p>(Any three points to be described)</p>	13 H	5X1=5



26.	<p>How did the policy of liberalization adopted by India in the 1990s promote globalization ? Explain with examples.</p> <ol style="list-style-type: none"> Barriers on foreign trade and foreign investment have been removed to a large extent. Goods can be imported and exported easily. Foreign companies can set up factories and offices here. Multinational companies can invest capital easily. With increased foreign trade more choices are available for consumers. Producers in two countries now closely compete against each other. MNCs produce goods and services globally. Increased foreign trade and investment lead to integration or interconnection between countries. Any other relevant point. <p>(Any three points to be explained.)</p>	64 E	3X1=3
27.	<p>Explain the main features of commercial agriculture.</p> <ol style="list-style-type: none"> Crops are grown for the purpose of selling in market. Higher doses of modern inputs, e.g. high yielding variety (HYV) seeds, chemical fertilizers, insecticides and pesticides are used to obtain higher productivity. The degree of commercialization of agriculture varies from one region to another. Plantation is also a type of commercial farming. In this type of farming, a single crop is grown on a large area. The plantation has an interface of agriculture and industry. Plantations cover large tracts of land, using capital intensive inputs, with the help of migrant laborers. All the produce is used as raw material in respective industries. . Any other relevant point. <p>(Any three points to be explained)</p>	31 G	3X1=3
28.	<p>Differentiate between Single and Multi-party system.</p> <p>Single Party System:</p> <ol style="list-style-type: none"> Single party system is defined by the dominance of one political party, which controls the government and other political institutions. 	51 P	3X1=3



	<p>ii. A single party system often limits disagreements, leading to reduced civil liberties.</p> <p>iii. It reflects an absence of a meaningful political choice.</p> <p>iv. Single party systems may result into authoritarian regimes.</p> <p>v. Examples include China and North Korea.</p> <p>vi. Any other relevant point.</p> <p>Multi-party system:</p> <p>i. Multi-party system is characterized by multiple political parties competing for power.</p> <p>ii. It encourages democratic participation and representation of various interests in the country.</p> <p>iii. It provides meaningful choice to the voters.</p> <p>iv. Multi-party systems result into democratic regimes.</p> <p>v. Example is India.</p> <p>vi. Any other relevant point.</p> <p>(Any three points of differences to be explained)</p>		
29.	<p>Examine the role of public sector in providing essential services to the people.</p> <p>i. The role of public sector is diverse in providing essential services to the People such as electricity, clean water, transportation, health care to improve their overall quality of life.</p> <p>ii. It helps in creating job opportunities, contributing to economic stability and growth, increasing the GDP.</p> <p>iii. Running proper schools and providing quality education.</p> <p>iv. Special emphasis on elementary education which in turn leads to quality life.</p> <p>v. It also helps control price hikes, monopolies and ensuring fair competition in essential sectors to provide equal opportunities to all.</p> <p>vi. Any other relevant point.</p> <p>(Any three points to be examined)</p>	33-34E	3X1=3



	<p>v. In many places merchants and traders refused to trade in foreign goods or finance foreign trade.</p> <p>vi. As the boycott movement spread, and people began discarding imported clothes and wearing only Indian ones.</p> <p>vii. The production of Indian textile mills and handlooms went up significantly.</p> <p>viii. Any other relevant point.</p> <p>(Any five points to be explained)</p>		
31.	<p>(a) Explain the importance of non-conventional sources of energy with examples.</p> <p>i. The growing consumption of energy has resulted in the country becoming increasingly dependent on fossil fuels such as coal, oil and gas.</p> <p>ii. Rising prices of oil and gas and their potential shortages have raised uncertainties about the security of energy supply in future, which in turn has serious repercussions on the growth of the national economy.</p> <p>iii. Increasing use of fossil fuels also causes serious environmental problems. There is a pressing need to use renewable energy sources like solar energy, wind, tide, biomass and energy from waste material.</p> <p>iv. India is blessed with an abundance of sunlight, water, wind and biomass.</p> <p>v. It has various programmes for the development of these renewable energy resources.</p> <p>vi. There is an urgent need to develop a sustainable path of energy development.</p> <p>vii. Promotion of energy conservation and increased use of renewable energy sources are the twin planks of sustainable energy.</p> <p>viii. Any other relevant point.</p> <p>(Any five points to be explained)</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>(b) Explain with examples the importance of minerals for human life.</p> <p>i. Minerals are an indispensable part of our lives.</p> <p>ii. Almost everything we use, from a tiny pin to a towering building or a big ship, all are made from minerals.</p> <p>iii. The railway lines and the tarmac (paving) of the roads, our implements and machinery too are made from minerals.</p> <p>iv. Cars, buses, trains, aero planes are manufactured from minerals and run on power resources derived from the earth.</p> <p>v. The food that we eat contains minerals.</p> <p>vi. In all stages of development, human beings have used minerals for their livelihood, decoration, festivities, religious and ceremonial rites.</p> <p>vii. Any other relevant point.</p> <p>(Any five points to be explained)</p>	54 G	5X1=5
	<p>(b) Explain with examples the importance of minerals for human life.</p> <p>i. Minerals are an indispensable part of our lives.</p> <p>ii. Almost everything we use, from a tiny pin to a towering building or a big ship, all are made from minerals.</p> <p>iii. The railway lines and the tarmac (paving) of the roads, our implements and machinery too are made from minerals.</p> <p>iv. Cars, buses, trains, aero planes are manufactured from minerals and run on power resources derived from the earth.</p> <p>v. The food that we eat contains minerals.</p> <p>vi. In all stages of development, human beings have used minerals for their livelihood, decoration, festivities, religious and ceremonial rites.</p> <p>vii. Any other relevant point.</p> <p>(Any five points to be explained)</p>	42G	5X1=5



	<p>iv. Provides a method to resolve conflicts amicably and arrive at a mutual consensus providing dignity and respect among people.</p> <p>v. Allows room to correct mistakes in a peaceful manner which leads to effective policies on part of the government.</p> <p>vi. Democratic principles also safeguard fundamental rights promoting freedom of speech, assembly, religion which are necessary conditions for a free and healthy society.</p> <p>vii. Democracy holds the leaders accountable for their actions, requiring transparency and responsibility that ensures trust building.</p> <p>viii. Democracy helps to foster a spirit of ownership and accountability among the citizens.</p> <p>ix. Any other relevant point.</p> <p>Any five points to be justified.</p>		
33.	<p>(a) Analyze the role of credit in the development of a nation.</p> <p>i. Credit facilitates investment in business, helping them start new business Ventures.</p> <p>ii. Credit also leads to infrastructural development enhancing the overall economy of a nation.</p> <p>iii. It increases the production capacity of individual entrepreneurs and also companies thereby increasing their profits and overall standard of living.</p> <p>iv. It helps people to meet the ongoing expenses of production smoothly and also complete the production process on time for the industrialists.</p> <p>v. Credit helps consumers make significant purchases as per their needs like homes, vehicles, gadgets etc. which adds to their social status.</p> <p>vi. Credit enables farmers to purchase better seeds, fertilizers and equipment's leading to increased crop yields and improved agricultural practices.</p> <p>vii. Credit also helps funding new research and development activities, leading to innovations, thus enhancing the scientific temperament of a</p>	43 E	5X1=5



	<p>nation.</p> <p>viii. Any other relevant point.</p> <p>Any five points to be analyzed.</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>(b) Examine the role of 'Reserve Bank of India' in the economic development of the country.</p> <ol style="list-style-type: none"> The Reserve Bank of India supervises the functioning of formal sources of loans. The RBI has the authority to issue currency notes in India. It ensures the adequate supply of money in the economy. The RBI monitors the banks in maintaining cash balance. The RBI upholds the integrity of the economic system. The RBI sees that the banks give loans not just to profit-making businesses and traders but also to small cultivators, small scale industries, to small borrowers etc. Periodically, banks have to submit information to the RBI on how much they are lending, to whom, at what interest rate etc. Any other relevant point. <p>Any five points to be examined.</p>	48-49 E	5X1=5
	<p>Section E</p> <p>(Case/ Source Based Questions)</p>		4X4=16
34.	<p>Read the given source and answer the questions that follow:</p> <p style="text-align: center;">Power Sharing and Panchayati Raj</p> <p>We need to give more power to the panchayats to realise the dream of Mahatma Gandhi and the hopes of the makers of our Constitution. Panchayati Raj establishes true democracy. It restores power to the only place where power belongs in a democracy – in the hands of the people. Giving power to Panchayats is also a way to reduce corruption and increase administrative efficiency. When people participate in the planning and implementation of developmental schemes, they would naturally exercise greater control over these schemes. This would eliminate the corrupt middlemen. Thus, Panchayati Raj will strengthen the foundations of our democracy.</p> <p>(34.1) How does the principle of power sharing promote democracy?</p> <p style="text-align: right;">(1)</p> <ol style="list-style-type: none"> Maximum participation of people is the spirit of democracy. People have a right to be consulted on how they are to be governed. People's participation in decision making ensures greater control over the government. 		1+1+2=4



	<p>iv. Any other relevant point (Any one point to be explained.)</p> <p>(34.2) Mention the main impact of women's participation in Panchayati Raj. (1)</p> <p>i. Women's participation in Panchayati Raj has helped to improve the women's role in public life. ii. With greater participation gender issues are raised in politics. iii. Any other relevant point (Any one point to be mentioned.)</p> <p>(34.3) Explain the role of Panchayats in the development of villages. (2X1=2)</p> <p>i. It restores power to the only place where power belongs in a democracy – in the hands of the people. ii. Giving power to Panchayats is also a way to reduce corruption. iii. It increases administrative efficiency. iv. Any other relevant point (Any two points to be explained.)</p>		
35.	<p>Read the given source and answer the questions that follow: Print and Censorship</p> <p>The power of the printed word is most often seen in the way governments seek to regulate and suppress print. The colonial government kept continuous track of all books and newspapers published in India and passed numerous laws to control the press. During the First World War, under the Defence of India Rules, 22 newspapers had to furnish securities. Of these, 18 shut down rather than comply with government orders. The Sedition Committee Report under Rowlatt in 1919 further strengthened controls that led to imposition of penalties on various newspapers. At the outbreak of the Second World War, the 'Defence of India Act' was passed, allowing censoring of reports of war-related topics. All reports about the Quit India Movement came under its purview. In August 1942, about 90 newspapers were suppressed.</p> <p>(35.1) Why were newspapers suppressed in 1942? (1)</p> <p>i. To censor reports of war-related topics and control the expansion of Quit India Movement. ii. Any other relevant point. (Any one point to be explained.)</p> <p>(35.2) How did the colonial government's policies affect nationalism? (1)</p> <p>i. Rules and policies like suppress print strengthened control that led to the imposition of penalties under the Rowlett Act. ii. The sense of being suppressed under colonialism provided a shared bond that tied many different groups together.</p>		1+1+2=4



	<p>iii. Any other relevant point. (Any one point to be explained.)</p> <p>(35.3) Examine the role of the press in colonial India. (2X1=2)</p> <p>i. Press exposed the British repressive policies. ii. It promoted social reforms. iii. It played an important role in the exchange of ideas. iv. It had spread the idea of Nationalism. v. Any other relevant point. (Any two points to be explained.)</p>		
36.	<p>Read the given source and answer the questions that follow:</p> <p style="text-align: center;">Sardar Sarovar</p> <p>Sardar Sarovar Dam has been built over the Narmada River in Gujarat. This is one of the largest water resource projects of India covering four states — Maharashtra, Madhya Pradesh, Gujarat and Rajasthan. The Sardar Sarovar project would meet the requirement of water in drought prone and desert areas. Sardar Sarovar Project will provide irrigation facilities to 18.45 lakh hectare of land, covering 3112 villages in 15 districts of Gujarat. It will also irrigate 2,46,000 hectares of land in the strategic desert districts of Barmer and Jalore in Rajasthan and 37,500-hectare land in the tribal hilly tract of Maharashtra through lift. About 75 per cent of the command area in Gujarat is drought-prone while entire command in Rajasthan is drought-prone. Assured water supply will soon make this area drought-proof.</p> <p>(36.1) Explain the importance of Sardar Sarovar Dam. (1)</p> <p>i. To meet the requirement of water in draught prone and desert areas. ii. Sardar Sarovar project has provided irrigation facilities. iii. Any other relevant point. (Any one point to be explained.)</p> <p>(36.2) How does Sardar Sarovar Dam align with sustainable development? (1)</p> <p>i. Sardar Sarovar Project is a source of clean energy. ii. It caters for the needs of future generations. iii. Any other relevant point (Any one point to be explained.)</p> <p>(36.3) Examine the role of community participation in the success of the Sardar Sarovar Project. (2X1=2)</p> <p>i. Sardar Sarovar project covers four states — Maharashtra, Madhya Pradesh, Gujarat and Rajasthan. ii. Project provide irrigation facilities to 18.45 lakh hectare of land, covering 3112 villages in 15 districts of Gujarat. iii. It facilitates irrigation to 2,46,000 hectares of land in the strategic desert districts of Barmer and Jalore in Rajasthan and 37,500-hectare land in the tribal hilly tract of Maharashtra through lift.</p>		1+1+2=4



	iv. Any other relevant point (Any two points to be examined.)		
	Section F (Map Skill Based Questions)		2+3=5
37.	<p>(a) Two places ‘A’ and ‘B’ have been marked on the given political outline map of India. Identify them with the help of the following information and write their correct names on the lines drawn near them:</p> <p>A. Kheda – A Satyagraha Movement</p> <p>B. 1927 – A session of Indian National Congress</p> <p>Please see attached map</p> <p>Note: The following questions are for the Visually Impaired Candidates only, in lieu of Q. No. 37 (a).</p> <p>(a) (i) Name the place where the session of Indian National Congress was held in 1927.</p> <p>-Madras/Chennai</p> <p>(ii) Name the place where Gandhiji organized Satyagraha for Indigo Planters.</p> <p>-Champaran</p> <p>(b) On the same political outline map of India, locate and label any three of the following with suitable symbols:</p> <p>(i) Tehri -Dam</p> <p>(ii) Kakrapara – Nuclear Power Plant</p> <p>(iii) Mumbai – Software Technology Park</p> <p>(iv) Sri Guru Ram Das Jee – International Airport</p> <p>Please see attached map</p> <p>Note : The following questions are for the Visually Impaired Candidates only, in lieu of Q. No. 37 (b).</p> <p>(b) Attempt any three questions.</p> <p>(i) Name the State where Tehri Dam is located.</p> <p>- Uttarakhand</p> <p>(ii) Name the State where Kakrapara Nuclear Power Plant is located.</p>	<p>2X1=2</p> <p>2x1=2</p> <p>3x1=3</p> <p>3X1=3</p>	



	<p>-Gujarat</p> <p>(iii) Name the State where Mumbai Software Technology Park is located.</p> <p>- Maharashtra</p> <p>(iv) Name the State where Sri Guru Ram Das Jee International Airport is Located</p> <p>- Punjab</p>		
--	--	--	--




प्रश्न सं. 37 के लिए

#

For question no. 37

भारत का राजनीतिक रेखा-मानचित्र
Political Outline Map of India
Set - 32/S/1, 32/S/2, 32/S/3



Scale 1:15000000
100 200 300 400 500 km

History - 1x2 = 2

Geography : Any three 1x3 = 3
(2+3 = 5)

32/S/1

Page 27 of 27

23/07/2025 15:31

